



प्रेस नोट

## कानपुर से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार

दिनांक : 13 सितम्बर, 2018

आज दिनांक 13-09-2018 को यूपी एटीएस द्वारा जनपद-कानपुर नगर से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी...

**कमर-उज्ज-जमां** उर्फ डॉ0 हुरैरा उर्फ कमरुद्दीन


पुत्र स्वर्गीय सैदुल हुसैन

निवासी ग्राम -सराक पिली

पोस्ट -जमुनामुख, होजाई, आसाम को गिरफ्तार किया गया

### **विवरण :-**

अप्रैल 2018 में सोशल मीडिया पर उक्त आतंकवादी द्वारा अपनी फोटो AK47 लिए हुए सोशल मीडिया पर डाली जिससे यह सुर्खियों में आया। अपना हिज्ब-उल-मुजाहिदीन का नाम इसने डॉ. हुरैरा पोस्ट किया। उसी समय से न्यूज और अन्य सोशल साईट पर फोटो वायरल हो रही थी तभी से इसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जाने लगी।



NIA के सहयोग से अभिसूचना विकसित करते हुए आज इस अभियुक्त को आज सुबह शिव नगर, थाना चकेरी, कानपुर से यूपी एटीएस द्वारा कानपुर पुलिस ए सहयोग से गिरफ्तार किया गया. प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि-

- इसकी गणेश चतुर्थी से सम्बंधित पर्व पर हमला करने की योजना थी
- हिज्ब-उल-मुजाहिदीन द्वारा इसे रेकी व तैयारी के लिए भेजा गया था
- फोन से विडियो मिला है जिसमें कानपुर स्थित एक मंदिर की रेकी के चित्र हैं
- पूछताछ में स्वीकार किया कि HM का सक्रिय सदस्य है और कानपुर आतंकवादी घटना करने की तैयारी के लिए भेजा गया था।

### **ट्रेनिंग :-**

कमर-उज्ज-जमां अप्रैल 2017 में कश्मीर में ओसामा नाम के व्यक्ति के संपर्क में आया उसी के माध्यम से हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया और इसने हिजबुल मुजाहिदीन की ट्रेनिंग किश्तवाड़ से ऊपर पहाड़ के जंगलो मे कि।

### **प्रोफाइल :**

- यह असाम का रहने वाला है।
- हिज्ब-उल-मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य
- बी.ए. तृतीय वर्ष कि परीक्षा में सम्मिलित हुआ किन्तु अनुत्तीर्ण हो गया।
- इसने कंप्यूटर कोर्स व टाइपिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया है।

- यह 2008 से 2012 तक विदेश (Republic of Palau (Island country near Philippines) में भी रहकर कर आया है।
- इसका विवाह वर्ष 2013 में असाम में ही हुआ है। इसका एक बेटा भी है।

**पूछताछ और कार्रवाई के बिन्दु :**

- कश्मीर से आकर यहाँ कब से छिपा था ?
- इसके और कौन-कौन से साथी हैं ?
- इसके पास धन कैसे आया, कितना आया ?
- इसके टारगेट क्या- क्या थे?

**गिरफ्तार करने वाली टीम :-**

अपर पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश यादव व पुलिस उपाधीक्षक श्री दिनेश पुरी के नेतृत्व में यह ऑपरेशन किया गया.

-----